#### **SG** Finserve Limited



To, Corporate Professionals Capital Pvt. Ltd D-28, First Floor, South Extension Part-1, New Delhi - 110049, India

Subject: Recommendations on the Open Offer to the shareholders of SG Finserve Limited (Earlier known 'Moongipa Securities Limited') by Committee of Independent Directors in terms of Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (SEBI (SAST) Regulations, 2011)

Dear Sir/Madam,

We, **SG Finserve Limited** (Earlier known 'Moongipa Securities Limited') (hereinafter referred to as the 'Target Company') are hereby submitting the recommendations of committee of independent directors on the open offer made by **Mr. Rahul Gupta and Mr. Rohan Gupta** (hereinafter collectively referred as 'Acquirers') along with Sudesh Business Ventures Private Limited (hereinafter collectively referred as 'PAC') to acquire upto 1,07,30,980 (One Crore Seven Lakh Thirty Thousand Nine Hundred and Eighty) Equity Shares constituting 26.00% of Paid up Equity Share Capital of the Target Company at a price of INR 107/- (Indian Rupees One Hundred and Seven Only) per fully paid up Equity Share payable in cash which includes interest of INR 5.70 (Indian Rupees Five and Seven Zero Paisa Only) at the rate of ten percent (10%) per annum for each equity share of the Target Company, pursuant to, and in compliance with, amongst others, Regulation 3(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto.

Kindly take the above information on your records.

For and on behalf of SG Finserve Limited (Earlier known 'Moongipa Securities Limited')

Ritu Nagpal

Compliance Officer

Membership No. A38318

Date: 21.04.2023 Place: Delhi

(CIN: L74899DL1994PLC057941)

Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, East Delhi, Delhi-110092, Ph.: 011-41450121

E-mail: compliance@sgfinserve.com, Website: <u>www.sgfinserve.com</u>

13 FINANCIAL EXPRESS

யறு தப்பத்தப்புள்ளி நகுணனிகள் https://tntenders.gov.in, http://townpanchayats.tn.gov.in/tender என்ற இணையதன முகவரிகளிலிருந்து இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும் மறுஒட்பந்தப்புள்ளிகள் குறித்த முழு விபரங்களும் பெறலாம். மறுஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தொடர்பான நேரம் மற்றும் நாள்: அப்புன் கலந்தாய்வு கூட்டம் -18.05.2023 காலை 11.00 மணி

ஆ) மறுதப்பந்தப்புள்ளி ஆன்னைலில் சமர்ப்பித்தல் - 23.05.2023 மாலை 3.00 மணி வரை

இ) மறுஒப்பந்தப்புள்ளி நூள்.23.05.2023 மாலை 3.00 மணி

ri) மற்குப்புள்ளி ஆன்னைன் நிறத்தல் - 23.05.2023 மாலை 3.30 மணி

மறு ஒப்பத்தப்புள்ளிகள் பேறப்படும் நாளன்று அலுவலகத்திற்கு விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்ப<sub>ச</sub>ன் அதற்கு அடுத்த வேண நாளில் அதே நேரத்தில் அதே இடத்தில் மறுஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டு திறக்கப்படும். இதர விபரங்கள் தொழில்நுட்ப ஒப்பந்தப்புள்ளியில் அறியலாம்.

ஓம்.//கலைவாணிபாலமுரளி, தலைவர், மடத்துக்குளம் பேரூராட்சி G#-us-Gigt-85,/2240/sp0ubsoludreff/2023 திருப்பூர் மாவட்டம் maximus euthay agabilistis domuit legatis engames uffibey efficiellatis uscubilla

அம்.//நா.நாகராஜன், செயல் அலுவலர், படத்துக்குளம் பேரூராட்சி திருப்பூர் மாவட்டம்

## CAPTAIN POLYPLAST LTD Gujrat, India. Tel No.: +91-2827-253006. E-mail: compliance@captainpolyplast.in, Website: www.captainpolyplast.com, CIN NO.: L25209GJ1997PLC031985 Irrigation Systems

## NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 &110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021 and 3/2022 dated 5th May 2022, (the "MCA Circulars") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, issued by SEBI, Captain Polyplast Limited ("the Company") was on April 19, 2023 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice ("the Notice") through email for seeking their approval by way of ordinary resolution in respect of the business mentioned in the Notice dated April 14, 2023.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended) (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Company is pleased to provide its shareholders the facility to cast their vote on the resolutions set forth in the Notice through electronic voting system ("REMOTE E-VOTING") of NSDL

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (as amended), the Company further informs all Members that:

a) The Ordinary Business set out in the Notice may be voted electronically.

b) The date of Completion of sending of Notice on April 19, 2023.

c) The Voting rights of the Members shall be in proportion to the Equity Shares held by them in the paid up Equity Shares Capital of the Company as on Cut-off date i.e. April 21, 2023. A person whose name is recorded in the Depositories as on cut-off date April 21, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

d) The remote e-voting period commences on Monday, 24TH April, 2023(9:00 a.m.) and ends on Tuesday, 23RD May, 2023 (5:00 p.m.).

e) The voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 23rd May, 2023.

f) The Postal Ballot Notice, together with Explanatory statement, Remote E-voting instructions and the process of email registration of non-registered members to avail Postal Ballot Notice & Procedure for "Remote E-voting" in terms of MCA Circulars is available on the Company Website – www.captainpolyplast.com and on (e-voting agency) website https://www.evoting.nsdl.com/

g) In light of the MCA Circulars, Members who have not registered their email address may get their email address registered by sending an email to the Company's Share Transfer Agent at **bssahd@bigshareonline.com**, member(s) may also intimate the same to the Company by writing an email at compliance@captainpolyplast.in. The members shall provide the following information in the email-

a. Full Name:

- b. No of shares held:
- c. PAN: d. DPID & Client ID:
- e. Email id to be registered and Mobile No.:

compliance@captainpolyplast.in.

h) Post successful registration of the email, the member would get soft copy of the notice and the procedure for evoting along with the User ID and Password to enable e-voting for this Postal Ballot. In case of any queries, member may write to compliance@captainpolyplast.in or bssahd@bigshareonline.com.

Members are however requested to register their email addresses, in respect of electronic holdings with their concerned Depository Participants and in respect of physical holdings, with the Company's Share Transfer Agent I.e. Bigshare Services Pvt. Ltd.

) In terms of MCA Circulars, voting can be done only by Remote-E-voting. As the Remote E-voting does not require a person to attend to a meeting physically, the members are strongly advised to use the Remote E-voting procedure by themselves and not through any other person/proxies. Further, on account of threat posed by COVID-19 and in terms of MCA Circulars, the Company will send Postal Ballot Notice in electronic form only.

k) Members are requested to communicate their assent and dissent through "Remote E-voting" system only. I) In case of any queries or grievances regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual which is available at https://www.evoting.nsdl.com/ under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in. Alternatively, you may also contact by writing an email at

For Captain Polyplast Limited Date: 20-04-2023 Place: Rajkot

**Company Secretary** Khyati Mehta

MUTUAL

# I HDFC MUTUAL FUND

BHAROSA APNO KA **HDFC Asset Management Company Limited** A Joint Venture with abrdn Investment Management Limited

CIN: L65991MH1999PLC123027 Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676

#### e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com NOTICE

NOTICE is hereby given that in accordance with the powers delegated by HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund"), the following Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options is declared under HDFC Balanced Advantage Fund, an Open-ended Balanced Advantage Fund ("the Scheme") and Tuesday, April 25, 2023 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) is fixed as the Record Date for the same:

Name of the Scheme / Plan(s) / Option(s)	Net Asset Value ("NAV") as on April 19, 2023 (₹ per unit)	Amount of Distribution (₹ per unit)#	Face Value (₹ per unit)	
HDFC Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	29.688	0.000	10.00	
HDFC Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	33.413	0.230	10.00	

# Amount of distribution per unit will be the lower of the rate mentioned above or the available distributable surplus (rounded down to a multiple of five at the third decimal) as on the Record Date.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Scheme would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date).

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the ex-Distribution NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

Unit holders are advised to note that for redemptions and IDCW declared with effect from January 13, 2023, as per amended SEBI regulations, payout will be done only through electronic mode(s), even where a Unit holder has opted to receive physical instruments. Thus, payment of such amounts shall be made through physical instruments only in exceptional circumstances for reasons to be recorded by the AMC. Accordingly, unit holders who have opted for / have earlier received physical instruments are requested to update their bank account details by / sending us a copy of a cancelled cheque of first / sole holder's bank account.

All updations of PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details, etc. should immediately be forwarded to the Investor Services Centers of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form). Unit holders are also advised to link their PAN with Aadhaar Number, Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or IDCW payments.

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Date : April 20, 2023 Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

# (T) IDBI mutual

# **IDBI** Asset Management Limited

CIN: U65100MH2010PLC199319 Registered Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005 Corporate Office: 4th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005 Tel: (022) 66442800 Fax: (022) 66442801 Website: www.idbimutual.co.in E-mail: contactus@idbimutual.co.in

#### Notice No. 02/2023-24

#### HOSTING OF UNAUDITED HALF-YEARLY FINANCIAL RESULTS OF THE SCHEMES OF IDBI MUTUAL FUND FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2023

Investors are requested to note that pursuant to Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, a soft copy of the unaudited half-yearly financial results of the schemes of IDBI Mutual Fund for the half-year period ended March 31, 2023 is hosted on IDBI Mutual Fund website (www.idbimutual.co.in) in a userfriendly and downloadable format.

For IDBI Asset Management Limited (Investment Manager to IDBI Mutual Fund)

Place: Mumbai Date : April 20, 2023 Chief Compliance Officer

Statutory Details: IDBI Mutual Fund has been set up as a trust sponsored by IDBI Bank Limited with IDBI MF Trustee Company Limited as the Trustee (Trustee under the Indian Trusts Act, 1882) and with IDBI Asset Management Limited as the Investment Manager.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

#### SG FINSERVE LIMITED (EARLIER KNOWN AS "MOONGIPA SECURITIES LIMITED")

Registered Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, East Delhi -110092 IN Tel. No.:011-44457164, E-mail ID:compliance@sgfinserve.com, Website: www.sgfinserve.com CIN:L74899DL1994PLC057941

Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC') for the Open Offer to the Shareholders of SG Finserve Limited (Earlier known 'Moongipa Securities Limited') (hereinafter referred to as 'the Company'/ 'Target Company') by Mr. Rahul Gupta and Mr. Rohan Gupta (hereinafter referred to as 'Acquirers') and Sudesh Business Ventures Private Limited (hereinafter referred to as 'PAC') under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ('SEBI (SAST) Regulations, 2011').

1.	Date	April 20, 2023
2.	Name of the Company	SG Finserve Limited (Earlier known 'Moongipa Securities Limited')
3.	Details of the Offer pertaining to the Company	Open Offer for acquisition of upto 1,07,30,980 (One Crore Seven Lakh Thirty Thousand and Nine Hundred and Eighty) Equity Shares representing 26.00% of the Paid-up Equity Share Capital of the Target Company at a price of INR 107/- (Indian Rupees One Hundred and Seven Only) per fully paid-up equity share payable in cash which includes interest of INR 5.70 (Indian Rupees Five and Seven Zero Paisa Only) at the rate of ten percent (10%) per annum
4.	Name of the Acquirers	Mr.Rahul Gupta    Mr. Rohan Gupta
5.	Name of the PAC	Sudesh Business Ventures Private Limited
6.	Name of the Manager to the Offer	Corporate Professionals Capital Private Limited
7.	Members of the Committee of Independent Directors	<ul> <li>Mr. Anil Kumar Bansal</li> <li>Ms. Asha Anil Agarwal</li> <li>Mr. Dukhabandhu Rath</li> <li>Mr. Upendra Hosdurg Sundar Kamath</li> </ul>
8.	IDC Member's relationship with the Company	The IDC members are Independent Directors of the Company.
9.	Trading in the Equity shares/other securities of the Company by IDC Members	None of the IDC members hold any shares of the Company and neither have they traded in any equity shares / other securities of the Company during a period of 12 months prior to the date of Public Announcement and since then till date.
10.	IDC Member's relationship with the Acquirer	The IDC members do not have any relationship with the Acquirers.
11.	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	Not Applicable
12.		Based on the review of the Public Announcement and the Detailed Public Statement issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers, IDC believe that the Open Offer is in accordance with SEBI (SAST) Regulations, 2011 and to that extent is fair and reasonable.
		The shareholders should independently evaluate the offer and take their own informed decision. They are also advised to seek expert tax opinion before taking their decision in this regard.
13.	Summary of reasons for recommendation	The Board of Directors of the Target Company, at its meeting held on July 25, 2022, subject to, inter alia, receipt of approval from the shareholders of the Target Company,

fulfilment of certain conditions precedent and receipt of other statutory/ regulatory approval, as may be required, approved the issuance of Preferential Issue of Equity Shares I and Preferential Issue of Warrants I in the Target Company. As on date of Draft Letter of Offer, the Acquirers already holds 56.25% shares in the Target Company and pursuant to the Preferential Issue of Equity Shares I, the shareholding of Acquirers increased from 56.25% of Pre-Issue Paid-up Share Capital of the Target Company to 73.05% of the Expanded Share Capital of the Target Company, triggering the requirement to make an Open Offer under Regulation 3(2) of SEBI (SAST) Regulations. The equity shares of the Company are listed and traded on the bourses of BSE and

are frequently traded within the meaning of definition of 'frequently traded shares' under clause (j) of Sub-Regulation (1) of Regulation 2 of the SEBI (SAST) Regulations) on BSE. The Offer Price of INR 107 (Indian Rupees One Hundred and Seven only) which

includes interest of INR 5.70 (Indian Rupees Five and Seven Zero Paisa Only) at the rate of ten percent (10%) per annum is justified, in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, being the highest of the following:

Particulars

(a)	The highest negotiated price per share of the target company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an open offer	Not Applicable
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirers along with their persons acting in concert during 52 weeks immediately preceding the date of Public Announcement	Not Applicable
(c)	The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirers along with their persons acting in concerts during 26 weeks immediately preceding the date of the Public Announcement	Not Applicable
(d)	The volume-weighted average market price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	INR 94.44/-
(e)	The Equity Shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to the Offer considering valuation parameters including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	Not Applicable as the shares of the Target Company are frequently traded

SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Acquirers agrees to pay the interest at the rate of ten percent (10%) on the Offer Price to the shareholders of the Target Company for from the date following the last date of payment as per the observation letter received from SEBI i.e. November 04, 2022 till the last date of payment to shareholders on the basis of SEBI approval. The calculation of delay period and interest is provided below -

Particulars	Details					
Last payout date as per Observation letter on	November					
September 19, 2022	04, 2022					
Last Payout date based on the Revised Schedule of Activities of the Offer, determined after receipt of SEBI nod on April 17, 2023, after receipt of RBI approval	May 29, 2023					
Delay Period						

	Delay Feriou			
Month	227	Days		
Nov-22		30		
Dec-22		31		
Jan-23		31		
Feb-23		28		
Mar-23		31		
April-23		30		
May-23		29		
Delay Day	S	206		
Total number of	Original Offer	Interest	Total	

Total number of delay days	Original Offer Price	Interest	Total
206	INR 101	INR 5.70	INR 106.70
of the Acquirers along w	s considered and present ith PAC and Manager to Hundred and Seven onl	the Offer, the Off	er Price of IN
sinstified in terms of Rec	gulation 8 of the SERI/SA	ST) Regulations	g-en seiterendere S

		is justified in terms of Regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations.
14. Details of I	ndependent Advisors, if any.	None
15. Any other r	matter(s) to be highlighted	None
"To the best of ou	ur knowledge and belief, after m	aking proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in

For and on behalf of The Committee of Independent Directors SG Finserve Limited (Earlier known 'Moongipa Securities Limited')

Anil Kumar Bansal Place: New Delhi Chairperson - Committee of Independent Directors Date: April 21, 2023

all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the

information required to be disclosed by the Company under the Takeover Code."

## Calcom

## CALCOM VISION LIMITED

Regd. Office: C-41, Defence Colony, New Delhi-110024 Corp. Office: B-16, Site-C, Surajpur Industrial Area, Greater Noida-201306, U.P. Tel: 0120-2569761, Fax: 0120-2569769 Website: www.calcomindia.com, Email: corp.compliance@calcomindia.com POSTAL BALLOT NOTICE

CIN: L92111DL1985PLC021095

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110, 108 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (cumulatively "Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, Calcom Vision Limited ('the Company' s seeking approval from its Members for passing of resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated April 20, 2023 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting ("e-voting/remote e-voting").

In terms of relevant provisions of the Act and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, read with Nos.17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020 and No. 33/2020 dated September 28, 2020 and No.39/2020 dated December 31, 2020 and No. 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 202. 03/2022 dated May 05, 2022 and No. 11/2022 dated December 28, 2022 ("MCA Circulars"), the Postal Ballot Notice along with the instructions regarding e-voting has been sent only by email on Thursday, April 20, 2023 to all those Members, whose email address is registered with the Company or with the Depositories/DepositoryParticipants and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as or Friday, April 14, 2023 ("Cut-off Date").

Members may also note that in compliance to the above MCA Circulars the communication of assent / dissent of the members on the resolutions proposed in this notice will only take place through the remote e-voting system. The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company at www.calcomindia.com and on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at of www.evoting.nsdl.com evoting@nsdl.co.in. Members who have not registered their email address and in consequence could not receive the Postal Ballot Notice may get their email address registered by sending an email to the Company's Registrar and Share Transfer Agent at rta@abhipra.com. Member(s) may also intimate the same to the Company by writing at corp.compliance@calcomindia.com. The members shall provide the following information in the email:

Full Name

Number of shares held:

Folio Number (if shares held in physical): Share certificate number (if shares held in physical):

Demat account number/ DP ID- Client ID (if shares are held in Demat):

Post successful registration of the email, the member would get soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for this Postal Ballot. In case of any queries, member may write to corp.compliance@calcomindia.com. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sandeep

Kansal, having Membership Number 14132, Practicing Company Secretary proprietor of M/s Sandeep Kansal & Associates, Company Secretaries to act as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot (remote e-voting) process in a fair and transparent manner and in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, read with Section 108

and other applicable provisions of the Act read with related Rules, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. The detailed process of e-voting is available in the notice. Voting rights of the Members shall be reckoned as on the Cut-off date. Person who is not a member as on Cut-off Date should treat this Notice for information purposes only. The period of e-voting shall commence on Friday, April 21, 2023, at 9:00 A.M. (IST) and ends on Saturday, May 20, 2023, at 5:00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled for voting after the abovementioned time. No voting shall be allowed thereafter. Once the vote is confirmed by

resolutions, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the Company for e-voting i.e. Saturday, May 20, 2023. The result of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's report will be placed on the Company's website i.e., www.calcomindia.com and on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) at of www.evoting.nsdl.com / evoting@nsdl.co.in. The same shall simultaneously be communicated to Stock Exchange on which the shares

the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

The result of the Postal Ballot along with Scrutinizer's Report shall be

announced not later than 2 working days from last date of voting. The

of the Company are listed i.e., Bombay Stock Exchange, In case of any query/concern/grievance, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.:022 - 4886 7000 and 022 2499 7000 or send a request to Ms. Soni Singh at evoting@nsdl.co.in. By Order of the Board of Directors For Calcom Vision Limited

Place: Greater Noida Aayushi Jindal Date: April 20, 2023 Company Secretary & Compliance Officer

#### ■ KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice Tender No: T No.09/2023-24/SE/Q

KIIFB KRFB- Utility shifting in Pallimukku Kamukumchery- Mukkadavu road, **EMD**: Rs. 200000, **Tender fee**: Rs. 11025+1985 Last Date for submitting Tender: 11-05-2023 02:00:pm Phone: 04742745293

Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

KWA-JB-GL-6-100-2023-24

Price

Superintending Engineer PH Circle Kollam

# PUBLIC NOTICE

Notice is given to the general public that the title evidencing documents of the following properties have been lost and it is requested that any person holding any title evidencing documents (including chain to title) in respect to following properties situated at PANCHALAM VILLAGE of Tindivanam Taluk and attached to Tindivanam Joint-II Sub Registration District, Tindivanam Registration District of Tindivanam District and also attached to the village Panchayat Limits of Panchalam and Union Council of Tindivanam is requested to handover such documents:

S. No.	Property Details	Reference to missing documents
1.	Survey Number 139/2A (Ac 1.68 Cents)	Registered Sale Deed dated 12.06.1963 executed by Raju Udayar, to and in favour of Kannan (Registered as Document Number 822/1963, Sub Registrar Office, Tindivanam)
2.	Survey Number 139/2B (Ac 0.50 Cents)	Registered Sale Deed dated 12.06.1965 executed by Raju Udayar, to and in favour of Kannan (Sub Registrar Office, Tindivanam)
3.	Survey Number 140/1 (Ac 1.12 Cents)	Unregistered Will Deed dated 01.08.1985 executed by Raju Govindasamy Reddiyar, to and in favour of S. Sridhar and others.
4.	Survey Number 140/1B (Ac 0.70 Cents)	Registered Sale Deed dated 27.11.1991 executed by Govindasamy, to and in favour of the Present Owner Himalaya Granites Private Limited (Registered as Document Number 996/1991, Sub Registrar Office, Tindivanam Joint-II)
5.	Survey Number 140/2 (Ac 0.52 Cents)	Registered Sale Deed dated 27.11.1991 executed by lyyadurai, to and in favour of the Present Owner Himalaya Granites Private Limited (Registered as Document Number 252/1991, Sub Registrar Office, Tindivanam Joint-II)
6.	Survey Number 140/5 (Ac 0.54 Cents)	<ul> <li>Registered Sale Deed dated 27.11.1991 executed by Munusami and others, to and in favour of the Present Owner Himalaya Granites Private Limited (Registered as Document Number 997/1991, Sub Registrar Office, Tindivanam Joint-II)</li> <li>Registered Rectification Deed executed by Munusami</li> </ul>

Himalaya Granites Private Limited (Registered as Document Number 22/1993, Sub Registrar Office, Tindivanam Joint-II) Survey Number 140/6 Registered Sale Deed dated 27.11.1991 executed by Subbarayan and others, to and in favour of the Present

(Ac 0.51 Cents) Owner Himalaya Granites Private Limited (Registered as Document Number 999/1991, Sub Registrar Office, Tindivanam Joint-II) Registered Rectification Deed dated 24.08.1993

> executed by Subbarayan and others, to and in favour of the Present Owner Himalaya Granites Private Limited (Registered as Document Number 21/1993, Sub Registrar Office, Tindivanam Joint-II)

and others, to and in favour of the Present Owner

Survey Number 146/3B Registered Sale Deed dated 17.12.1987 executed by (Ac 1.38 Cents) Kuppusamy Udayar, to and in favour of the Present Owner Himalaya Granites Private Limited (Registered as Document Number 1156/1987, Sub Registrar Office,

Tindivanam Joint-II) 9. 4) Survey Number 140/1B Registered Partition Deed dated 31.03.1980 between (Ac 0.70 Cents) Govindasamy Reddiar and others, (Registered as

Tindivanam Joint-II) to undersigned at: Address: RBL Bank Limited

For HG INDUSTRIES LIMITED Ramesh Kumar Haritwal Managing Director & CEO

Document Number 565/1980, Sub Registrar Office

 UGF, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Email: Priyadarshini.singh@rblbank.com Ph. No. 8130222900

Date : 20.04.2023 Place: Tindivanam, Tamilnadu

New Delhi

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai





#### उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ए-1/4, लखनपुर, कानपुर

ई-निविदा सूचना

एतदहारा सचित किया जाता है, कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास / अनुरक्षण / उच्चीकरण कार्यों हेत् सरकारी विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / प्राधिकरणों / परिषदों / नगर निकार्यों में अर्ह 'ए श्रेणी में पंजीकृत फर्मों / ठेकेदारों से ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 24.04.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे से दिनांक 14.05.2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं जिन्हें दिनांक 15.05.2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा केवल शपथ पत्रों की मूल प्रतियों निविदा खोलने की तिथि से दो कार्यदिवस के अन्दर कार्यालय में जमा की जा सकेंगी ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं का विवरण निम्नवत है:--

क्रमांक		कार्य की लागत रू० (लाख में)
	Widening & Upgradation of 24.00 M wide existing Road alongwith Cocacola Co. at IA MG Road Distt. Hapur	293.36

नोट:— निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर एवं जी०एस०टी० सहित दरें अंकित करें। अलग से कोई कर देय नहीं होगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की website:www.onlineupsidc.com पर रिथत ई-लिंक एवं यूपीएलसी की website: http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेतु

कार्यालय के प्रबन्धक (सिविल) के मोबाइल नं० 9918460255 पर सम्पर्क किया जा सकता है। प्रधान महाप्रबन्धक

#### दक्षिण रेलवे रेलवे विद्यतीकरण

निविदा सुचना सं. आरई/एमएस/सिविल/2023-03 तिथि 12.4.2023 भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य अभियंता, रेलवे विद्युतीकरण, चेन्नई एग्मोरे द्वारा निम्न कार्यों के लिये ई-निविदा आमंत्रित है। निविदाऐं वेबसाईट www.ireps.gov.in द्वारा 19.5.2023 के 15.00 बजे तक ऑन लाइन जमा की जाएगी। बोलीदाता केवल अंतिम तिथि एवं समय तक अपनी मल/संशोधित बोली जमा कर सकते हैं। इस निविदा के लिये मैन्यअल बोली स्वीकार नहीं होगी तथा इस प्रकार से प्राप्त किसी भी बोली को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

कार्य का नामः टेनी में कम्पाउण्ड वाल सहित ओएचई एवं पीएसआई डिपो का प्रस्तावित निर्माण तथा दक्षिण रेलवे के मदुरई मंडल के मदुरई (छोड़कर) तथा बोडिनायकनुर (सहित) स्टेशनों के बीच बल्लालनाठी में आरसीसी रिटैनिंग बाल एवं आरसीसी ट्रेन तथा सम्पर्क रोड के साथ मिट्टी भराव सहित ट्रैक्शन सब-स्टेशन के लिये कन्ट्रोल रुम का प्रस्तावित निर्माण।

मद	निविदा सं.	अनु. नगदी मूल्य	धरोहर राशि भुगतान	पूर्णता अवधि (माह में)
सं.		( रु. )	( रु. )	
1	आरई-एमएस- सिविल-2023-03	36546746.96	332700.00	नौ माह
विस्तृत	निविदा आमंत्रण सूचना (१	एनआईटी) तथा निविदा व	स्तावेज वेबसाईट www.	ireps.gov.in पर उपलब्ध है तथा

#### Follow us on: twitter.com/GMSRailway

निविदाकारों को उसे देखने की सलाह दी जाती है। निविदाकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि जीएसटी सहित अपनी दरों

# SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट सं. 103, प्रथम तल, सीएण्डबी स्क्वेयर, संगम कॉम्पलेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059 दूरभाष : +91-22-67875300) +91-22-67875334) www.sbfc.com

U67190MH2008PTC178270 विषय : अहमदाबाद शाखा का नये पर्त पर स्थानान्तरण

आपको सूचित किया जाता है कि एस.वी. रोड पर स्थित हमारी बोरिवली शाखा में आपका वर्तमान

खाता नीचे वर्णित के अनुसार नये परिसर में स्थानान्तरित किया जायेगा। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

प्रथम तल, निकट कामा हाउस, सामने मेट्रो पिलर नं. 63 अजमेर रोड, अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर-

दकान नं. 72, खाटीपुरा रोड, निकट बैंक ऑफ बड़ौदा, झोटवाड़ा, जयपुर-302012

अतः ग्राहकों से निवेदन है कि वे 20 जुलाई, 2023 से अपनी लेन-देन की आवश्यकताओं के लिए नये व्यवसाय स्थल पर जायें। किसी पूछताछ के लिए कृपया उपरोक्त सम्पर्क विवरण पर हमारी नई शाखा से निस्संकोच सम्पर्क करें। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से।

## इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः युनिट नं. 305, उसरा तल, विंग 2/ई, कॉर्पोरेट एवेन्य, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, चकला, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई 400093 ई-मेल : connect@indostarhfc.com सीआईएन : U65990MH2016PTC271587 सम्पर्क नं. : श्री अमित वर्मा - 9999976012

13(2) मांग सचना

की निथि नथा गणि

INDOSTAR

आरक्षित मूल्य ईएमडी ई-नीलामी की

तिथि एतं समय

ई-नीलामी

बिक्री सूचना

संविदा विद्य राशि

[नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी-सह-विक्रय सुचना

प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम,

2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) को सूचना दी जाती है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कर्जदार/रों से देय राशि की वसली के लिए इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद ''प्रतिभृत लेनदार'' सन्दर्भित) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित प्रतिभत संपत्ति का कब्जा लेने के अनसरण में, हमारे बिक्री और विपणन तथा ई-नीलामी सेवा भागीदार, मेसर्स इन्वेंटऑन सॉल्यशंस प्रा. लिमिटेड (इन्वेंटऑन) के वेब पोर्टल https://auctions.inventon.in में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो कब्जे में है, की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऑनलाइन जमा करने हेतू प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं, जिसकी बिक्री ''जहां है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी, जिसका

प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किय जाता है। कथित सम्पत्ति ''जहां है जैसे है आधार'', ''जो है यही है आधार'', ''जो कुछ भी है वहीं है आधार'' तथा ''आश्रय रहित आधार'' पर कब्जे में है जिसक विवरण नीचे दिया गया है :

सम्पत्ति का विवरण

का विवरण	का ाताथ तथा साश		सावदा वृद्धि साश	ि तिथि एव समय
LNGHAOHL-071 80003809, LNGHAOHL- 07180003810 शाखाः गाजियाबाद कर्जदारः हिमांशु रोहिल्ला सह-कर्जदारः रोहित रोहिल्ला, अंजना रोहिल्ला	30/11/2021, फ. 11,99,657/- (रुपये ग्यारह लाख निन्यानवे हजार छह सौ सत्तावन मात्र) 19 अक्टूबर 2021 तक तथा आगे के ब्याज और भुगतान तक शुल्क के साथ।		रु. 95,000/- रु.10,000/-	23.05.2023 समय : 10.30 बजे पूर्वा. से 11.30 बजे पूर्वा. तक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित
LNDEL0HL-03180000780 तथा LNDEL0HL- 03180000797 शाखाः दिल्ली पीतमपुरा कर्जदारः श्री पंकज कुमार, सह–कर्जदारः श्री वीरेंद्र शर्मा, श्रीमती, रेखा शर्मा	12/11/2021, रु. 223198/- (रुपये बाईस लाख इकतीस हजार एक सौ अठानवे मात्र) 19/10/2021 तक तथा आगे के ब्याज और भुगतान तक शुल्क के साथ।	संपत्ति : – दूसरी मंजिल पर (पीछे का बाया हिस्सा), संपत्ति नंबर –223–सी, खसरा नंबर – 490/106, लाल डोरा, गांव– घरौंदा नीम बांगर, पटपड़ गंज, शाहदरा, दिल्ली –110091	रु.1,15,000/−	23.05.2023 समय : 10.30 बजे पूर्वा. से 11.30 बजे पूर्वा. तक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित
LNDEL0HL-07180004038 LNDEL0HL-07180004039, शाखाः दिल्ली पीतमपुरा कर्जदारः सतीश चंद सह–कर्जदारः आशा देवी	23/06/2022, रु.10,46,775/- (रुपये दस लाख छियालीस हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) 04-जून- 2022 तक तथा आगे के ब्याज और भुगतान तक शुल्क के साथ।	खिचड़ीपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली पूर्वी दिल्ली,	रु. 97,000/− रु.10,000/−	23.05.2023 समय : 10.30 बजे पूर्वा. से 11.30 बजे पूर्वा. तक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित
LNDEL0HL-06180002762 LNDEL0HL-061 8000276 शाखाः दिल्ली पीतमपुरा कर्जदारः लक्ष्मी सह–कर्जदारः जगदीश	09/11/2022 रुपये, 24,26,391/- (रुपये चौबीस लाख छब्बीस हजार तीन सौ इक्यानबे मात्र) 19 अगस्त 2022 तक तथा आगे के ब्याज और भुगतान तक शुल्क के साथ।	अपार्टमेंट, सैनी विहार, मुंडका का विस्तारित लाल	रु.1,30,000/- रु.10,000/-	23.05.2023 समय : 10.30 बजे पूर्वा. से 11.30 बजे पूर्वा. तक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित
LNDEL0HL-06180 002756 LNDELOHL-061800027576 शाखाः दिल्ली पीतमपुरा कर्जदारः निशा कुमारी सह–कर्जदारः जगदीश	09/11/2022 रु. 24,98,398/- (रुपये चौबीस लाख अठानवे हजार तीन सौ अट्ठानबे मात्र) 19-अक्टूबर-21 तक तथा आगे के ब्याज और भुगतान तक शुल्क के साथ।	अपार्टमेंट, सैनी विहार, मुंडका का विस्तारित लाल डोरा, नई दिल्ली - 110041 सीमाएं: - उत्तर -	रु.1,45,000/−	23.05.2023 समय : 10.30 बजे पूर्वा. से 11.30 बजे पूर्वा. तक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित

का विवगा

1. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए www.indostarhfc.com और हमारे सेल्स एवं मार्केटिंग और ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://auctions.inventon.in प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट पर देख सकते हैं;

2. इसे ही हमारे पोर्टल पर लिंक https://www.indostarhfc.com/Auction-Notices के तहत प्रकाशित किया गया है।

2. सभी इच्छूक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल https://auctions.inventon.in में अपना नाम पंजीकृत करना होगा और पूर्वोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा।

3. संपत्ति की किसी भी पूछताछ, सूचना और निरीक्षण, समर्थन, प्रक्रिया और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे बिक्री और विपणन विभाग और ई-नीलामी सेवा भागीदार मैसर्स इन्वेंटऑन सॉल्युशंस प्रा. लिमिटेड से, दुरभाष नंबरः +91 9833478748/9029086321 और ई-मेल आईडीः care@inventon.net या manoj.das@inventon.net के माध्यम से या आईएचएफपीएल के अधिकृत प्राधिकारी, श्री अमित वर्मा 9999976012 से संपर्क कर सकते हैं, नोटः कृपया ध्यान दें कि प्रतिभृत लेनदार सभी कर्जदारों/सह–कर्जदारों/बंधककर्ताओं को स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा बिक्री नोटिस जारी करने जा रहा है। यदि इसे किसी

भी पक्ष द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, तो बिक्री नोटिस के इस प्रकाशन को सेवा के एक प्रतिस्थापित विकल्प के रूप में माना जा सकता है। ह./- अधिकृत प्राधिकारी

दिनांक: 21/04/2023 कृते इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

#### क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, नई दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं 13 के मामले में

'एस.एम. इन्फ्रॉकॉन प्राईवेट लिमिटेड' जिसका पंजीकृत कार्यालय 340/38, गली नं. 1-बी, फ्रैंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110095 ईस्ट दिल्ली, डीएल आईएन में है, के मामले में।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं 13 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा कम्पनी के मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन के प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नामित कम्पनी ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिये मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II में संशोधन के लिये 27.12.2022 को आयोजित उसकी असाधारण आम सभा में कम्पनी के सदस्यों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार उसकी मिमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं 13 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन दाखिल करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-ब्लॉक, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली में जमा करें या जमा कराएं या

पंजीकृत डाक से भेजें: बोर्ड की ओर से कृत्ते, एस एम इन्फ्रॉकॉन प्राईवेट लिमिटेड तिथि: 20.4.2023 (राज कुमार गुप्ता

स्थानः नई दिल्ली DIN: 00106711 पताः एच.नं. ७९५, सेक्टर-१४, फरीदाबाद, हरियाणा-121007

#### POONAWALLA HOUSING FINANCE Apna Ghar, Apni Pehchan

आम जनता को व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेंट के माध्यम से बोली लगाने के लिए ऑमंत्रित किया जाता है।

पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठा तल, जीरो वन आईटी पार्क, क्रम सं. 79/1, घोरपड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036 शाखा यूनिट : 2सरा तल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, 517, राधिका विहार, मथुरा-281004 ई-नीलामी बिक्री सूचना, सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

एतदुद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/गारन्टरों को सुचित किया जाता है कि मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लि. अब निगमन के प्रमाणपत्र के माध्यम से पुनावाला हाउसिंग फाइनांस लि. (पीएचएफएल) के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत पीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया था, की लागू ब्याज, चार्जेज तथा खर्चे आदि के साथ पीएचएफएल के बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति की बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत 'जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा आश्रय-रहित आधार' पर होगी। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पीएचएफएल/प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.poonawallahousing.com देखें।

प्रस्ताव स. ग्राहक का नाम (A)	माग सूचना का ।ताथ तथा बकाया राशि ( <b>B</b> )	कब्ज का प्रकृति (C)	सम्पात का विवरण ( <b>D</b> )	आराक्षतः मूल्य (E)	इएमडा ( आरपा का 10%) (F)	इएमडा जमा करने की तिथि (G)	वृद्धि	सम्पात क निरीक्षण की तिथि एवं समय (I)	नालामा का तिथि एवं समय ( J )	ज्ञात ऋण भार ∕कोर्ट के मामले, यदि कोई हो, ( <b>K</b> )
18 /100174 सुरेश (कर्जदार) सनीता (सह–	सूचना दिनांक : 18/08/2022 कुल बकाया : रु. 867,067/- (रुपये आठ लाख सड़सठ हजार सड़सठ मात्र) 20/11/2021 तक देय तथा वसूली तक 13.80% वार्षिक दर से ब्याज		प्लॉट सं. सी-8, सी-17 और सी-18 के हिस्से का समस्त भाग, खसरा नं. 1437, मौजा महोली, काव्यांजली कॉलोनी, तहसील और जिला मथुरा में स्थित, क्षेत्रफल 143.72	7,44,455.3/- (रुपये सात लाख चौवालीस हजार चार सौ पचपन एवं तीस पैसे मात्र)	रु. 74,445.53/- (रुपये चौहत्तर हजार चार सौ पैंतालीस एवं तिरेपन पैसे मात्र)	26.05.2023 को 5 बजे अप. से पूर्व		18.05-2023 (11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप.)	27-05-2023 (11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप.)	निल

"बिक्री/खरीद की भावी पूछताछ या किसी सहायता के लिए कृपया श्री इकबाल आलम से मोबाइल नं. +91 9958195453 पर सम्पर्क करें।"

इच्छक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पृछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो, का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतष्ट हो लें।

इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जिसे नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता : तीसरी मंजिल, गुरुग्राम, हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124, 25, 26, सपोर्ट ई-मेल आईडी : Support@bankeauctions.com सम्पर्क व्यक्ति : विनोद चौहान, ई-मेल आईडी : delhi@c1india.com, सम्पर्क नं. 9813887931 से अनिवार्य है। कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ही ई–नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को 13.10.2022 को या इससे पूर्व ''पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लि.'', बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता नं. 000651000460 तथा आईएफएससी कोडः ICIC0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 की खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों प्रतियों को अपलोड, ईमेल करना होगा तथा स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजना होगाः श्री सुधांशु शर्मा, पता- दूसरी मंजिल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, 517, राधिका विहार, मथुरा - 281004. मोबाइल नं. 9953904004, ई–मेल आईडी: sudanshu.sharma@poonawallahousing.com.

प्राधिकृत अधिकारी, पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड स्थानः मथुरा, उ.प्र. तिथि: 21.04.2023 (पर्व की मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड)

# IDBI BANK

# ई-नीलामी सूचना

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, 8वीं मंजिल, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी कार्यालय परिसर, . पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली —110023, फोनः 011 — 69297171 / 69297166

(CIN: L65190MH2004GOI148838) वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री दिनांक 25.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होनी है, के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

वर्ग मीटर ।

एतद द्वारा सर्वसाधारण व विशेषः ऋणी (यों) व गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता हे कि नीचे वर्णित अचल संपित्तियों / प्रतिभूतित परिसंपिततयां प्रतिभूतित ऋणदाता (आईडीबीआई बैंक लि.) को गिरवी प्रभारित हैं चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के धारा 13(2) अंतर्गत प्रत्येक ऋणी के लिए नीचे दिए गए विवरण अनुसार ऋणियों, गारंटरों / गिरवीकर्ताओं (यहां के बाद ऋणियों के रूप में संदंभित) से राशि की वसूली के लिए मांग सूचना जारी की थी। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभेतकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में वर्णित शक्तियों के अनुपालन में, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित प्रतिभृतित संपतितयों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। चूंकि प्रतिभृतित संपत्तियों की बिक्री उस पर बैंक द्वारा व्यय लागतों व शुल्कों, भावी ब्याज सहित वसूली, एवं तत्पश्चात वसूल की गई राशि को घटाकर, यदि कोई है, मांग सूचना अनुसार ऋणियों से आईडीबीआई बैंक लि. को देय प्रतिभूतित ऋणों की वसूली सार्वजनिक ई—नीलामी द्वारा की जाएगी।

# प्रतिभूति संपत्तियों की बिक्री की अनुसूची

_												
क्र	1 10-11	मांग सूचना की	प्रतिभूति संपत्तियो	कब्जे की	कब्जे की	आरक्षित	धरोहर	ईएमडी	खाते का विवरण जिसमें	संपत्ति के	वृद्धिशील	प्राधिकृत अधिकारी/
₹	का नाम	तिथि और उसमें	ं का विवरण	स्थिति	तिथि	मूल्य	जमा	जमा करने	ईएमडी को आरटीजीएस/	निरीक्षण की	बोली	नोडल अधिकारी का
		वर्णित बकाया		(भौतिक या			राशि	की अंतिम तिथि व	एनईएफटीके माध्यम से	तिथि और समय		नाम और संपर्क नंबर
33		देय राशि	8	सांकेतिक)		K 50	(ईएमडी)	समय	जमा किया जाना है	Tall of the tall		8 52
- [7	. श्री विनोद कुमार	07.01.2022	कार्यालय संख्या 301 और			रू.	रू.	24.05.2023	खाता संख्याः	संभावित खरीददार	रू.	श्री राहुल कुमार सिंह–
- 1	साहू ('उधारकर्ता')		302, तीसरी मंजिल, एंजेल	भौतिक	20.01.2023	73,07,000/-	7.35.000/-	को शाम	19137000010793	अपने आप दौरा	50,000/-	011-46574123
- 1	और श्रीमती सुनीता साहू	31,75,929.00	बिजनेस, 14 / 2, साइट प्ट, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद,			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5:00 बजे	नामः आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	कर सकते हैं।		श्री दीपक जैन
	('सह–उधारकर्ता')		गाजियाबाद (उ.प्र.)					तक	आईएफएससी कोडः - IBKL0000191	970 (1970) 6 [		011—69297163

**ई—नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम और शर्तै: बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तो के अधीन है। (1)** प्रतिभृति परिसंपत्तियों की बिक्री हिते एवं कृते प्रतिभृति ऋणदाता अर्थात आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जैसी है जहाँ है, जैसी है जो कुछ है के आधार पर वहां जो कुछ है और बिना रिकोर्स के आधार पर की जानी है। (2) बिक्री इस विज्ञापन में और ''बोली दस्तावेज'' में दिए गए नियमों एवं शर्तों के पूर्णतया अधीन होगी। बोली दस्तावेज हमारे किसी भी कार्यालय से सभी कार्यदिवस को प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा आईडीबीआई की वेबसाईट www.idbibank.in तथा https://www.bankeauctions.com पर से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। (3) बिक्री ई-नीलामी प्लेटफार्म की वेबसाईट https://www.bankeauctions.com पर ई-नीलामी सेवा प्रदाता सी 1 इंडिया प्रा. लि. सम्पर्क सूत्र श्री विनोद चौहान (ईमेलः delhi@c1india.com एर support@bankeauctions.com) अथवा मोबाईलः +91-9813887931. फोनः +91-124-4302020 के मार्फत होगी। (4) प्राधिकत अधिकारी को सभी या किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का पर्ण अधिकार है. यदि स्वीकार नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए चाहे कछ भी हो नीलामी को किसी भी समय आगे बढाने या रदद करने का पर्ण अधिकार है। इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। (5) सफल बोलीदाता को बिक्री की पिष्ट के तरंत बाद बिक्री मुल्य की 25% राशि जमा धरोहर राशि को समायोजित करके जमा करनी होगी। बिक्री मुल्य की शेष राशि बिक्री की पृष्टि के 15 दिन अथवा ए.ओ. की सहमति से आगे बढाई गई अवधि के भीतर जमा करनी होगी। शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहने पर, धरोहर राशि सहित पहले जमा की जा चुकी राशि जब्त कर ली जाएगी। (6) 25 प्रतिशत बोली राशि तुरंत जमा करने में या निर्धारित अवधि में बोली का 75 प्रतिशत जमा करने में असफल होने पर पहले से जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और प्रतिभूतित संपित्तियों को दुबारा बेचा जाएगा। 7 सभी वैधानिक देय / ऋण / पंजीकरण शुल्क / स्टाम्प डयूटी कर आदि सहित सभी देय खरीददार द्वारा वहन किये जाएगें। अधिक जानकारी और पूर्ण नियम और शर्तों के लिए, कप्या **www.idbibank.in** पर जाएं और / या) उल्लिखित नोडल अधिकारियों / प्रधिकत अधिकारियों से संपर्क करें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 9(1) और 8(6)के अंतर्गत 15/30 दिनों की वैधानिक सूचना उधारकर्ता / गारंटरों को एतदवारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित राशि अद्यतन ब्याज एवं सहायक खर्ची सहित, का भूगतान ई-नीलामी से पूर्व करें, असफल रहने पर उक्त सम्पत्ति को

नीलामी द्वारा बेच दिया जाऐगा और शेष राशि, यदि कोई है तो, ब्याज और लागत सहित वसूल किया जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

CIN: U25209DL1996PTC075831 जेसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एफ—209ए, प्लॉट नं. ४, आदित्य प्लाजा, कडकडड्मा कम्युनिटी

श्रम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समेक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्टीकत कार्यालय **'राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से 'हरियाणा राज्य' स्थानांतरित करने के लिए तारीख 10 अप्रैल, 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पृष्टि की मांग की

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"

सुमति प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड

सेंटर, दिल्ली-110092 में स्थित हैं

गई है। कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र. को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी—2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। रजिस्टीकृत कार्यालय : एफ-209ए, प्लॉट नं. ४, आदित्य प्लाजा, केड़कड़ड़्मा कम्युनिटी सेंटर, दिल्ली-110092 आवेदक की ओर से

कत्ते समित प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड दीपेश सहतिया तिथि : 20.04.2023 स्थान : दिल्ली निदेशक डीआईएन : 00045592

फ्यूचर सप्लाई चैन सॉल्यूशन्स लिमिटेड जो सम्पूर्ण भारत में लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में प्रचालन कर रही है, के लिये अभिरुचि की अभिवयक्ति का आमंत्रण

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया)

विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए(1) के अंतर्गत

सबाधत । ववरण

	ासन/पन क साथ कापारट डब्टर का नाम	फ्यूचर सप्लाइ चन साल्यूशन्स ।लामटड
١.	ारागाना का साथ कानारट ७००र का गान	~ ~
		CIN: L63030MH2006PLC160376
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	नॉलेज हाउस, श्याम नगर, जोगेश्वरी - विखरोली लिंक रोड
		जोगेश्वरी ईस्ट, मुंबई 400069
3	वेबसाईट का यूआरएल	https://www.futuresupplychains.com/
	~ ~	
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिसंख्य निर्धारित परिसम्पत्तियां अवस्थित है	सम्पूर्ण भारत में स्थित है
5.	मैन उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	एनए
A -1		, ,
6.	पिछले वित्त वर्ष में बिक्री की गई मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा	રું. 60,875.61 ભાલ
7.	कर्मचारियों/कर्मियों की संख्या	2 (दो)
_	पिछले दो वर्षों के उपलब्ध वित्तीय वित्तीय	विवरण futuresupply.ibc@gmail.com पर ईमेल
0.	विवरणों (अनुसूची के साथ), क्रेडीटरों की सूची,	
	पिक्रया के परवर्ती कार्यक्रमों के संबंधित तिथियों	कर मांगी जा सकता है।
10 4	सहित विस्तृत विवरण उपलब्ध हैः	
9.	संहिता की धारा 25(2)(h) के अंतर्गत प्रस्ताव	विवरण futuresupply.ibc@gmail.com पर ईमेल
	आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	कर विवरण मांगी जा सकता है।
10	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	
		· ·
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी	30 मई, 2023
	करने की तिथि	
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्तियां जमा करने की	04 जुन, 2023
	अंतिम तिथि	
12	ईओआई जमा करने की लिये प्रॉसेस ईमेल आईडी	futuresupply ibc@gmail.com
15.	रजाजार जमा करन का लिप प्राप्त रमल आहडा	Tuture suppry. 100 (aginan. com
	75	हस्ता/-
	20.4.2023 मुम्बई	राजन रावत आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00743/2018-2019/12262
स्थान:	गुन्भर	সাহপাপাসাহ পথা. প.: IDDI/IFA-UU2/IF-NUU/45/2018-2019/12202

फ्यचर सप्लाई चेन सॉल्यशंस लिमिटेड के मामले में

पताः बी-602, एजीयानो, रुस्तमजी अर्बनिया, माजीवाड़ा, ठाणे पश्चिम, मुंबई-400601

पत्राचार का पताः 144, मित्तल कोर्ट, बी विंग, 14वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र, 4000

एएफए वैध 12-12-2023 तक

SG FINSERVE LIMITED

(EARLIER KNOWN AS "MOONGIPA SECURITIES LIMITED") Registered Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, East Delhi -110092 IN Tel. No.:011-44457164, E-mail ID:compliance@sgfinserve.com, Website: www.sgfinserve.com CIN:L74899DL1994PLC057941

Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC') for the Open Offer to the Shareholders of SG Finserve Limited (Earlier known 'Moongipa Securities Limited') (hereinafter referred to as 'the Company'/ 'Target Company') by Mr. Rahul Gupta and Mr. Rohan Gupta (hereinafter referred to as 'Acquirers') and Sudesh Business Ventures Private Limited (hereinafter referred to as 'PAC') under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ('SEBI (SAST) Regulations, 2011').

1.	Date	April 20, 2023
2.	Name of the Company	SG Finserve Limited (Earlier known 'Moongipa Securities Limited')
3.	Details of the Offer pertaining to the Company	Open Offer for acquisition of upto 1,07,30,980 (One Crore Seven Lakh Thirty Thousand and Nine Hundred and Eighty) Equity Shares representing 26.00% of the Paid-up Equity Share Capital of the Target Company at a price of INR 107/- (Indian Rupees One Hundred and Seven Only) per fully paid-up equity share payable in cash which includes interest of INR 5.70 (Indian Rupees Five and Seven Zero Paisa Only) at the rate of ten percent (10%) per annum
4.	Name of the Acquirers	Mr.Rahul Gupta    Mr. Rohan Gupta
5.	Name of the PAC	Sudesh Business Ventures Private Limited
6.	Name of the Manager to the Offer	Corporate Professionals Capital Private Limited
7.	Members of the Committee of Independent Directors	<ul> <li>Mr. Anil Kumar Bansal</li> <li>Ms. Asha Anil Agarwal</li> <li>Mr. Dukhabandhu Rath</li> <li>Mr. Upendra Hosdurg Sundar Kamath</li> </ul>
8.	IDC Member's relationship with the Company	The IDC members are Independent Directors of the Company.
9.	Trading in the Equity shares/other securities of the Company by IDC Members	None of the IDC members hold any shares of the Company and neither have they traded in any equity shares / other securities of the Company during a period of 12 months prior to the date of Public Announcement and since then till date.
10.	IDC Member's relationship with the Acquirer	
11.	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	Not Applicable
12.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on the review of the Public Announcement and the Detailed Public Statement issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers, IDC believe that the Open Offer is in accordance with SEBI (SAST) Regulations, 2011 and to that extent is fair and reasonable.
		The shareholders should independently evaluate the offer and take their own informed decision. They are also advised to seek expert tax opinion before taking their decision in this regard.
13.	Summary of reasons for recommendation	The Board of Directors of the Target Company, at its meeting held on July 25, 2022, subject to, inter alia, receipt of approval from the shareholders of the Target Company, fulfilment of certain conditions precedent and receipt of other statutory/ regulatory approval, as may be required, approved the issuance of Preferential Issue of Equity Shares I and Preferential Issue of Warrants I in the Target Company. As on date of

Capital of the Target Company to 73.05% of the Expanded Share Capital of the Target Company, triggering the requirement to make an Open Offer under Regulation 3(2) of SEBI (SAST) Regulations. The equity shares of the Company are listed and traded on the bourses of BSE and are frequently traded within the meaning of definition of 'frequently traded shares' under clause (j) of Sub-Regulation (1) of Regulation 2 of the SEBI (SAST) Regulations) on BSE

The highest negotiated price per share of the target

company for any acquisition under the agreement

The Offer Price of INR 107 (Indian Rupees One Hundred and Seven only) which includes interest of INR 5.70 (Indian Rupees Five and Seven Zero Paisa Only) at the rate of ten percent (10%) per annum is justified, in terms of Regulation 8(2) of

Draft Letter of Offer, the Acquirers already holds 56.25% shares in the Target

Company and pursuant to the Preferential Issue of Equity Shares I, the

shareholding of Acquirers increased from 56.25% of Pre-Issue Paid-up Share

the SEBI (SAST) Regulations, being the highest of the following: Particulars Price

Not

Applicable

frequently

	attracting the obligation to make a public announcement of an open offer	
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirers along with their persons acting in concert during 52 weeks immediately preceding the date of Public Announcement	Not Applicable
(c)	The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirers along with their persons acting in concerts during 26 weeks immediately preceding the date of the Public Announcement	Not Applicable
(d)	The volume-weighted average market price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	INR 94.44/-
(e)	The Equity Shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to the Offer considering valuation parameters including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares	Not Applicable as the shares of the Target Company are

Pursuant to the receipt of RBI approval on February 13, 2023, and SEBI approval to proceed with the open offer process on April 17, 2023, subject to, the payment of interest to the shareholders for the delay and in compliance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Acquirers agrees to pay the interest at the rate of ten percent (10%) on the Offer Price to the shareholders of the Target Company for from the date following the last date of payment as per the observation letter received from SEBI i.e. November 04, 2022 till the last date of payment to shareholders on the basis of SEBI approval. The calculation of delay period and interest is provided below -

of such companies

Particulars	Details	
Last payout date as per Observation letter on	November	
September 19, 2022	04,2022	
Last Payout date based on the Revised Schedule of	May 29, 2023	
Activities of the Offer, determined after receipt of SEBI	29/00/20/00/20/20/20/20/20	
nod on April 17, 2023, after receipt of RBI approval		
Delay Period		

Delay Period				
Month	Days			
Nov-22	30			
Dec-22	31			
Jan-23	31			
Feb-23	28			
Mar-23	31			
April-23	30			
May-23	29			
Delay Days	206			

delay days	Price	- 1 ( NO. 10 - 10 )	804033
206	INR 101	INR 5.70	INR 106.7
In view of the parameters of the Acquirers along with 107 (Indian Rupees One	ith PAC and Manager t	to the Offer, the Off	er Price of IN

Original Offer

is justified in terms of Regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations.

"To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the For and on behalf of

The Committee of Independent Directors SG Finserve Limited

Chairperson - Committee of Independent Directors

Interest

Total

(Earlier known 'Moongipa Securities Limited') **Anil Kumar Bansal** Place: New Delhi

Total number of

None

information required to be disclosed by the Company under the Takeover Code."

Details of Independent Advisors, if any.

15. Any other matter(s) to be highlighted

Date: April 21, 2023

www.readwhere.com

दिनांकः 20.04.2023

## देश-विदेश

दहशतवाद्यांच्या ग्रेनेड हल्ल्यात लष्करी वाहनाला भीषण आग, पाच जवानांचा होरपळून मृत्यू नवी दिल्ली, दि. २० ( वृत्तसंस्था ) : जम्मू-कार्रेमीरमधील पूंछ-जम्मू महामार्गावर एका लष्कराच्या वाहनाला भीषण आग लागून पाच जवानांचा मृत्यू झाला आहे. संबंधित वाहनातून रॉकेलची वाहतूक केली जात होती, त्यामुळे चालत्या वाहनाला आग लागून ही दुर्दैवी घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. अज्ञात दहशतवाद्यांनी लष्कराच्या वाहनावर केलेल्या हल्ल्यामुळे ही घटना घडली असल्याची माहिती नॉर्दन कमांडने दिली आहे. 'एएनआय' वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित लष्कराचं वाहन पूंछ जिल्ह्यातील भिंबर येथून संगिओतकडे जात होतं. यावेळी पूंछ-जम्मू महामार्गावर दहशतवाद्यांनी या वाहनावर हल्ला केला. दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारानंतर लष्कराच्या वाहनाला आग लागली, या आगीत पाच जवानांचा होरपळून मृत्यू झाला. पूंछ जिल्ह्यात सुरू असलेला मुसळधार पाऊस आणि धुक्याचा फायदा घेत अज्ञात दहशतवाद्यांनी लष्कराच्या वाहनावर गोळीबार केला. दहशतवाद्यांनी ग्रेनेडचा वापर केल्यामुळे गाडीला आग लागली, अशी माहिती नॉर्दन कमांडने दिली. 'या दुर्दैवी घटनेत दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी तैनात असलेल्या राष्ट्रीय रायफल्स युनिटच्या पाच जवानांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर अन्य एक जवान गंभीर जखमी झाला

आहे. संबंधित जवानाला तत्काळ राजौरी येथील लष्करी रुग्णालयात

दाखल केलं असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत,' असंही नॉर्दन कमांडने सांगितले. या हल्ल्याप्रकरणी लष्कराकडून पुढील कारवाई

केली जात आहे.

पैसे वाटपाचा कार्यक्रम जीवावर बेतला, लोकांची विक्रमी गर्दी, चेंगराचेंगरीत ८५ जण मृत्यूमुखी नवी दिल्ली, दि. २० ( वृत्तसंस्था ) : यमनची राजधानी साना येथे एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत ८५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर १०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. हुतीतील एका अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ओल्ड सिटीत व्यापाऱ्यांकडून गरिबांना आर्थिक मदत देण्याकरता एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, या कार्यक्रमात शेकडो गरीब लोक सहभागी झाले आणि एकच गोंधळ निर्माण झाला व चेंगराचेंगरीची स्थिती निर्माण झाली. त्यात ८५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते, ब्रिगेडियर अब्देल-खलिक अल-अघारी यांच्या आरोपानुसार, मदत वितरीत करण्याच्या कार्यक्रमात स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय न राखता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला त्यामुळं ही दुर्घटना घडली आहे. एका स्थानिक वृत्त वाहिनीनुसार, अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर, वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्याने दिलेल्या आकड्यानुसार जवळपास ८५ जण मृत्यूमुखी पडले आहेत. तर १३ जण गंभीर जखमी आहेत. ज्या ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते त्या शाळेत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. तसंच, दोन आयोजकांना ताब्यात घेतलं आहे. तिथे असलेल्या काही

# उड्डाणानंतर अवध्या चार मिनिटांत जगातलं सर्वात शक्तिशाली रॉकेट फुटलं

प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हवेत

गोळीबार करण्यात आला होता. मात्र गोळी एका विजेच्या तारेला

लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला, असं काही लोकांनी म्हटलं आहे.

लागली त्यामुळं मोठा विस्फोट झाला. त्यामुळं तिथे जमलेल्या

नवी दिल्ली, दि. २० (वृत्तसंस्था) : स्पेस एक्स हे जगातलं सर्वात शक्तिशाली रॉकेट उड्डाणानंतर अवघ्या चार मिनिटात फुटलं आहे. स्पेसएक्स स्टारिशप कॅप्सूल उड्डाणानंतरच्या तीन मिनिटात रॉकेट बूस्टरपासून वेगळं होणार होतं. मात्र तसं काहीही घडलं नाही अवघ्या चार मिनिटात या रॉकेटचा स्फोट झाला आणि आकाशात धुराचे लोट आणि आगीचे लोळ पाहण्यास मिळाले. ट्विटरवर यासंदर्भातले व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. महत्त्वाची बाब ही आहे की असं मानलं जात होतं की या स्टारशिप रॉकेटच्या मदतीनेच एक दिवसस माणूस मंगळावर स्वारी करेल. मात्र एलॉन मस्क यांनी लॉंचिंगच्या दरम्यान स्टारशिपमध्ये स्फोट होण्याची शक्यता ५० टक्के आहे असं म्हटलं होतं. स्टारशिप हे एक रियुजेबल रॉकेट होतं. या रॉकेटचे दोन भाग होते. पहिला पॅसेंजर भाग ज्या भागात प्रवासी असणार होते. तर दुसरा भाग होता तो म्हणजे हेवी रॉकेट बूस्टरचा. या पूर्ण रॉकेटची उंची १२० मीटर अर्थात सुमारे ३९४ फूट एवढी होती. तर वजन ५० लाख किलोग्रॅम होतं. याच रॉकेटचा स्फोट झाला

## आहे. मात्र येथे ग्राहकांना Apple फोनपे देणार सोनं खरेदीवर कॅशबॅक अक्षय तृतीयेला मिळणार संधी!

फिजिकल सोने चोरी किंवा हरवण्याची

भीती नेहमीच असते. अशा परिस्थितीत

सुरक्षित माध्यम म्हणून उदयास आले आहे.

**PUBLIC NOTICE** 

KHARA & MR IATIN STIDHIR KHARA hay

been lawful owners of Flat No. 101, 1 floor, "B" Wing, Kanta Smruti "B" Wing of Kanta Smruti "B" Wing CHS. Ltd., LBS Marg, Ghatkopar (W), Mumbai- 400086

which they have jointly purchased from Landlord / Promoters M/S. SUPREME

Landlord / Promoters M/S. SUPREMI BUILDERS vide Agreement dated 15.10.2005, duly registered vide document No. BDR-13/08288/2004 dated 21.10.2005 in their names. That said MRS. PRAFULLA SUDHIR KHARA died on 20.10.2015 and box burbard Mrs.

died on 20.10.2015 and her husband M

died on 20.0.2015 and her husband Mr. Sudhir J. Khara predeceased on 04.11.2010, leaving behind her, married daughter Mrs. Divya Paras Ajmera and two sons namely Mr. Jayesh Sudhir Khara, Mr. Jatin Sudhir Khara as her only legal heirs. That said Mrs. Divya Paras Ajmera died on 25.07.2017, leaving behind her son Mr. Siddharth Paras Ajmera and dagagaged daughter Ms. Nizialea Paras

deceased daughter Ms. Niralee Paras Ajmera (died on 26.07.2017), to acquire

Ajmera (died on 26.07.2017), to acquire her share in respect of said flat. That vide Release Deed dated 21.11.2022, duly registered vide document No. KRL-5/22464/2022 dated 21.11.2022, said Mr. Siddharth Paras Ajmera, Mr. Jayesh Sudhir Khara have released their share in separat of said flat in Syven of Mr. Jaylesh

espect of said flat in favour of Mr. Jati

Sudhir Khara and vide Gift Deed dated 23.03.2022 duly registered vide document No. KRL-1/5006/2022 dated 23.03.2022, said Mr. Jatin Sudhir Khara gifted the said flat to my client Mrs. Mamta Jatin Khara, since then my client is large occupation of the said flat seedle

in use, occupation of the said flat as sole owner and holding Share Certificate No

004, Distinctive Nos. 031 to 035 in her name and now my client intends to sell the said flat to any prospective purchaser/s.

Any person / party / legal heirs / representative having any adverse claim or interest over the said Flat or part thereof is asked to put the same in writing to me / my client within 14 days from the latt of publication haven fetherwise as

date of publication hereof otherwise no

claim shall be entertained.

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS t originally MRS. PRAFULLA SUDHIR

नवी दिल्ली, दि. २० (वृत्तसंस्था) : येत्या २२ एप्रिलला अक्षय्य ततीया आहे. यानिमित्ताने मौल्यवान वस्तुंची खरेदी करणे किंवा डिजिटल सोने हे गुंतवणुकीचे नवे आणि दान-धर्म अशी कामे चांगली असल्याचे म्हटले जाते. या दिवशी सोने खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. दरम्यान, डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे ने अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर ॲपद्वारे सोने खरेदीवर कॅशबॅक ऑफरची घोषणा केली

वॉलमार्टच्या मालकीची कंपनी झ्प्दहाझ ने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की २२ एप्रिल २०२३ रोजी १ ग्रॅम किंवा त्याहुन अधिक सोन्याच्या खरेदीवर ५० ते ५०० रुपयांपर्यंतचा निश्चित कॅशबॅक मिळणार आहे. युजर्स ॲपद्वारे उच्चतम शुद्धतेचे २४ कॅरेट सोने खरेदी करू शकतात आणि कोणतेही शुल्क न आकारता बँक ग्रेड विमा लॉकरमध्ये जमा करू शकतात. तसेच, युजर्सनी ठेवलेल्या सोन्याची कधीही विक्री केल्यावर ४८ तासांच्या आत त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात.

#### फोनपेद्वारे कशी करावी खरेदी?

आपल्या फोनपे ॲपमधील होम स्क्रीनच्या खाली Wealth वर टॅप करा. Investment Ideas सेक्शनअंतर्गत उदर् वर टॅप करा. यानंतर Buy One Time वर टॅप करा.

आपण इच्छित रक्कम किंवा ग्रॅम प्रविष्ट करू शकता. दरम्यान, ऑफर अंतर्गत कॅशबॅक मिळविण्यासाठी, एखाद्याला किमान १ ग्रॅम सोने खरेदी करावे लागेल. Proceed वर क्लिक करा (टीप- तुम्ही पाहत असलेली सोन्याची किंमत फक्त ५ मिनिटांसाठी वैध आहे आणि आपोआप रिफ्रेश होईल) Proceed to Pay वर क्लिक करा आणि पसंतीचा पेमेंट मोड निवडा आणि पेमेंट करा. तुम्ही खरेदी केलेले सोने बँक-ग्रेड लॉकरमध्ये स्टोअर केले जाईल. तुम्ही डिलिव्हरीसाठी विनंती करू शकता.

## भारताने दाखविला जगाला विकासाचा मार्ग, डॉ. विजय दर्डा यांनी घेतली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट

( वृत्तसंस्था ) जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल आव्हानांना सामोरे जात भारताची अर्थव्यवस्था जगभरातील देशांना विकासाचा मार्ग दाखवत आहे. याचे मुख्य कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मार्गदर्शन, नेतृत्व, तसेच अर्थमंत्रालयाची दूरदृष्टी त्यामुळे गुंतवणूकदार

भारताकडे आकर्षित होत असल्याचे उद्गार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काढले.

राज्यसभेचे माजी खासदार आणि लोकमत मीडिया समृहाचे अध्यक्ष डॉ. विजय दर्डा आणि व्यवस्थापकीय संचालक देवेंद्र दर्डा यांनी बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. सीतारामन यांनी अलीकडेच जी-२० देशांच्या संमेलनात अध्यक्षपद भूषविले आणि त्यांच्या सूचनांचा संमेलनाने स्वीकार केल्याबद्दल डॉ. दर्डा यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. त्याचबरोबर, वॉशिंग्टन डीसी येथे जागतिक आव्हानांवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला संबोधित केल्याबद्दलही त्यांचे अभिनंदन केले. जगभरातील देशांवर आर्थिक मंदीचे सावट गडद झाले आहे. विकास दर गडगडत आहे, पण याच काळात भारताची अर्थव्यवस्था जगाला



आशेचा किरण दाखवत आहे. रुपया स्थिर आहे.

देवेंद्र दर्डा यांनी देशात व्यवसायांना चालना देऊ शकणाऱ्या आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकणाऱ्या इझ ऑफ डुइंग बिझनेस संबंधात काही सूचना अर्थमंत्री सीतारामन यांना केल्या. ग्राहकांच्या आर्थिक हितरक्षणासाठी लोकमत समूहाच्या

आयोजित करण्यात येत असलेल्या लोकमत बँकिंग कॉन्क्लेव्ह २०२३ मध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण डॉ. विजय दर्डा यांनी अर्थमंत्री सीतारामन यांना दिले.

डिपॉझिटर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्शन थू प्रोफेशनलिझम या विषयावर पुणे येथे या कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करण्यात येत

आणि गुंतवणूकदार भारतात येत आहे. या कालखंडात अर्थव्यवस्था सुदृढ राखणे आव्हान आहे. अर्थव्यवस्था गडगडल्यास सर्वच वर्ग प्रभावित झाले असते. रशियाऱ्युक्रेन संघर्षाच्या जागतिक प्रभावानंतरही भारताने ज्या प्रकारे मुत्सद्देगिरी व अर्थनीतीमध्ये समन्वय साधला तो प्रशंसनीय असल्याचे नमूद करून डॉ. दर्डा यांनी अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.

#### मायक्रोसॉफ्टविरोधात कारवाईचा मस्क यांचा इशारा अवैधरित्या द्विटरचा डेटा वापरल्याचा आरोप

नवी दिल्ली, दि. २० (वृत्तसंस्था) : ट्विटरचे सीईओ एलॉन मस्क यांनी मायक्रोसॉफ्टविरोधात कायदेशीर इशारा दिला आहे. मायक्रोसॉफ्टने अवैधरित्या ट्विटर डेटाचा वापर केल्याचा आरोप मस्क यांनी केला मायक्रोसॉफ्टच्या प्लॅटफॉर्मवरून ट्विटर हटवण्यात आल्यासंबंधीच्या एका ट्विटवर प्रतिक्रिया देताना मस्क यांनी हा इशारा दिला आहे.

'त्यांनी अवैधरित्या ट्विटर डेटाचा वापर करून प्रशिक्षण दिले. कायदेशीर कारवाईची वेळ' अशी प्रतिक्रिया मस्क यांनी दिली आहे.

वास्तविक, ट्विटरने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वीच घोषणा केली होती की त्यांच्या ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस युझर्सना दरमहा किमान ४२ डॉलर शुल्क द्यावे लागेल. यानंतर मायक्रोसॉफ्टने आपल्या प्रोग्रामिंगसाठी एपीआय शुल्क देण्यास नकार दिला होता. यानंतर मायक्रोसॉफ्टने आपल्या जाहिरात प्लॅटफॉ र्मवरून ट्विटर हटवण्याविषयी विधान केले होते. कंपनीने म्हटले होते की,

जाहिरातींसाठी त्यांचे सोशल मीडिया आणि शेड्युलिंग टूल आता ट्विटरला सपोर्ट करणार नाही. मायक्रोसॉफ्टने म्हटले होते की, २५ एप्रिलपासून युझर्स ट्वट आणि ड्राफ्टसारखी कामे करू शकणार नाही. ते मागील ट्विट आणि अटॅचमेंटही बघु शकणार नाही. मायक्रोसॉफ्टची ही स्मार्ट कंपन्सेशन सेवा जाहिरातदारांना फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि लिंक्डइनच्या सेवांवर सोशल मीडिया

कॅम्पेन मॅनेज करायला मदत करते. यानंतर मस्क यांनी मायक्रोसॉफ्टवर आरोप केला की, कंपनीने त्यांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल चॅटजीपीटीला प्रशिक्षित करण्यासाठी ट्विटर डेटाचा अवैधरित्या केला. मायक्रोसॉफ्ट ओपनएआयमधील गुंतवणुकदारांपैकी एक आहे. २०१८ मध्ये ते कंपनीपासून वेगळे मस्क ओपनएआय ही संशोधन स्थापित एआय मायक्रोसॉफ्टकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही

# लोकसंख्येच्या आकड्याकडे नव्हे तर जीडीपी, बेरोजगारी

#### महागाईच्या आकड्यांकडे पहा : कपिल सिब्बल

नवी दिल्ली, दि. २० (वृत्तसंस्था): चीनला मागे लोकसंख्येच्या टाकत बाबतीत भारत जगातला सर्वात मोठा देश ठरला असला तरी यापेक्षा जीडीपी. बेरोजगारी आणि महागाईच्या आकड्यांकडे लोकांनी बिघतले पाहिजे. असा सल्ला राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी सोशल मीडियाच्या माध्यमात्न

लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताने चीनला मागे टाकले

नवी दिल्ली. दि.



आहे. चीनच्या १४२ कोटी लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या १४२ कोटी ८० लाखांवर गेली आहे. मात्र लोकांनी इतर आकडेवारीवर नजर टाकली पाहिजे. जागतिक बँकेच्या

आकार इ७.७३ ट्रिलियन डॉलर्स असून भारतीय इतका अर्थव्यवस्थेचा आकार केवळ दिलियन डॉलर्स आहे. इतका बेरोजगारी ४.८ टक्के आहे तर आपल्याकडे बेरोजगारीचा दर ७.७ टक्के इतका आहे. महागाईचा विचार केला तर चीनमध्ये केवळ १ टक्के महागाई असून भारतात महागाईचा दर ५.१ टक्के इतकी आहे, असे सिब्बल

# मुंबईपाठोपाठ दिल्लीत सुरू झाले ॲपलचे दुसरे रिटेल स्टोअर

(वृत्तसंस्था) : Apple चे दुसरे रिटेल स्टोअर दिल्लीमधील साकेत येथे सुरु करण्यात आले आहे. सीईओ टीम कूक यांनी या स्टोअरचे उदघाट्न केले आहे. याआधी परवा टीम कुक यांनी मुंबई येथे Apple च्या पहिल्या रिटेल स्टोअरचे उद्घाटन केले. यावेळी टीम यांनी हात जोडून लोकांचे स्वागत केले होते. दिल्लीमध्ये उभारण्यात आलेले हे रिटेल स्टोअर सिटीवॉक मॉल इथे उभारण्यात आले आहे. हे स्टोअर ते १०,००० १२,००० स्क्वेअरफूटमध्ये उभारले आहे. आज सकाळी १० वाजल्यानंतर ग्राहक या स्टोअरमध्ये जाऊन खरेदी करू शकणार आहेत. Apple चे देशातील दूर रिटेल स्टाअर ह दाक्षण दिल्लामधाल सिलेक्ट सिटी वॉक मॉलमध्ये तयार करण्यात आले आहे. मॉ लमधील पहिल्या मजल्यावर असणारे हे स्टोअर मुंबईतील फ्लॅ गशिप स्टोअरपेक्षा खूपच लहान

सर्व १, २ नव्हे तर तब्बल १५ भाषांमध्ये संवाद साधणार आहेत. प्रॉडक्ट्स बघायला मिळणार तसेच Apple साकेतची फिचर आहेत. Apple च्या भारतातील दुसऱ्या रिटेल स्टोअरविषयी काही वॉलदेखील भारतामध्येच तयार करण्यात आली आहे. हे स्टोअर

गोष्टी जाणून घेऊयात. Apple चे हे दुसरे तयार करत असताना पर्यावरणाचे स्टोअर दिल्लीमधील सिलेक्ट नुकसान होणार नाही याची खास सिटी सिटीवॉक मॉलमध्ये काळजी घेण्यात आली आहे. कारण हे स्टोअर पूर्णपणे स्टोअर पहिल्या मजल्यावर उभारण्यात आले आहे. Apple साकेटमध्ये पूर्णपणे कारबन न्यूट्रल स्वरूपाचे विशिष्ट प्रकारचे डिझाईनने तयार आहे. Apple साकेत स्टोअरमध्ये केलेले स्टोरफ्रंट आहे. Apple भारतीय ग्राहक कंपनीच्या AI च्या प्रॉडक्ट्स आणि उपकरणे सेवा 'Apple उाहग्ले' शी संवाद साधता येणार आहे. हो सुविध परदेशात Apple स्टोअरमध्ये दिसावीत म्हणून व्हाईट ओक ऑफर केलेल्या सुविधांसारखीच टेबल्सचा वापर करण्यात आला आहे. Apple च्या जिनियसमधून आहे. दिल्लीमधील Apple च्या ग्राहकांना कंपनीच्या कोणत्याही या दुसऱ्या रिटेल स्टोअरमध्ये उत्पादनाची माहिती मिळणार कर्मचारी काम करणार आहेत. तसेच ते खरेदीदारांशी

#### सार्वजनिक घोषणा अल्फाराज इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या भागधारक यांचे लक्ष वेधण्याकरित

सन्मा. राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण, मुंबई खांडपीठ यांच्या आदेश क्र. सीपी क्र. (आयबी) ४५३३ (एमबी)/२०१८ अनुसार आयए क्र. ५६६/२०२३ अंतर्गत आदेश दि. ११ एप्रिल, २०२३ (दि. १८ एप्रिल, २०२३ रोजी प्रसिद्ध आदेश) रोजी श्री. संजय कुमार मिश्रा यांना नोंदणीकरण क्र. आयबीबीआय/आयपीए-००१/आयपी पी०१०४७/२०१७-२०१८/११७३० अंतर्गत श्री. प्रफुल रघुनाथ रेणुसे परिसमापक यांच्या पूर्वीच्या अन्फारार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स ग्रायव्हेट लिमिटेड यांचे परिसमापन म्हणून नियुक्त केले आहे.

इन्क्रांआवस्त्र आवस्त्र (त्रावस्त्र) त्याच पारसमापन म्हणून । नयुक्त करा आह. कृपया लक्ष द्यावे की, मर्ब भागधारक यांने कृषया नोंद्र च्यावी, सर्व भविष्यातील संबंधित यांनी अल्फाराज इन्क्राप्रोजेक्ट्स प्रायक्हेट लिमिटेड यांच्या परिसमापन प्रोसेस यांच्या संबंधात श्री. संजय कुमार मिश्रा यांना त्यांचे परिसमापक म्हणून परिसमापक Lq.aipl@in.gt.com व team.aipl@in.gt.com यांना कार्यालयामध् थेट प्रत जारी करण्याकरिता सूचित केले आहे

संबंधित विवरण

٤.	परिसमापक यांचे नाव	संजय कुमार मिश्रा			
२.	परिसमापक यांचे नोंदणीकृत क्रमांक	आयबीबीआय/आयपीए-००१/आयपी-पी०१०४७/२०१७-२०१८/११७३०			
ø.	परिसमापक यांचा पत्ता	आयबीबीआय यांच्यासह नोंदणीकृत पत्ता : ड्रीम्स कॉम्पलेक्स, ४सी-१६०५, एलबीएस मार्ग, भांडुप (प), मुंबई ७८.			
٧.		नोंदणीकृत ईमेल आयडी : ipsanjaymishra@rediffmail.com संबंधित यांचा ईमेल : lq.aipl@in.gt.com team.aipl@in.gt.com			
दि	सही/- दि. २१ एप्रिल, २०२३ संजय कमार मिश्र				

ठिकाण : मुंबई

परिसमापक, अल्फाराज इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

#### जाहीर नोटीस

सर्व जनतेस कळविण्यात येते की, श्रीमती मनिष मनीराम मेस्त्री आणि श्री.प्रविण मनीराम मेस्त्री हे विरा नंद दिप को.ऑ.ही.सो.लि.चे सदस्य असुन सदनिका नं.B-303. तिसरा मजला, नंद धाम अपार्टमेंट, विरार नंद दिप को.ऑ.ही.सो.लि, विवा कॉलेज रोड, अरिहंत कॉम्प्लेक्स समोर, राम नगर, विरार पूर्व, गाव विरार तालुका वसई जिल्हा पालघर, चे मालक आहेत. श्रीमती मनिषा मनीराम मेस्त्री यांचे दिनांक 01/04/2021 रोजी निधन झाले आहे. माझ्या अशील श्री.प्रविण मनीराम मेस्त्री यांनी सदर मयत सभासदाचे भाग व हितसंबंध

हस्तांतरीत करण्यासाठी अर्ज केला आहे. या नोटीशीद्वारे संस्थेच्या भांडवलात मालमत्तेत असलेतं मयत सभासदाचे भाग व हितसंबंध हस्तांतरीत करण्यासंबंधी मयत सभासदाचे वारसदार किंवा अन्य मागणीदार हरकतदार यांच्याकडन हक्क. मागण्या हरकती मागवण्यात येत आहेत. ही नोटीस प्रसिदध झाल्यापासन 14 दिवसांच्या आत मला 109. पहीला नजला, शुभ लक्ष्मी शॉपिंग सेंटर, वसंत नगरी, वसई पुर्व, जि.पालघर ४०१२०८ हया पत्त्यावर लेखी पुराव्यासह कळवावे अन्यथा तसा कोणचाही कोणत्याही प्रकारचा हक्क हितसंबध, हिस्सा, अधिकार नाही व असल्यास तो सोडन दिला आहे असे समजण्यात येईल आणि मयत सभासदांचे संस्थेच्या भांडवलातील मालमत्तेतील भाग व

हितसंबंध यांच्या हस्तांतरणावावत पुढील कार्यवाही

Date: 21/04/2023 RAMJI PANDEY
Advocate High Court
Flat No. 302, Vandana Apartment
Jan Kalyan Nagar, Malad (W), Mum-95 करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी

#### जाहीर नोटीस सर्व जनतेस कळविण्यात येते की. श्री.मोहम्मद रफीक

यासीन आणि अझीज रफीक मोमीन हे एव्हरशाई जास्मीन को.ऑ.हौ.सो.लि.च्या सदस्य असुन सदनिका नं.102, पहीला मजला, विल्डींग नं. EC-188, एव्हरशाई न जास्मीन को.ऑ.हौ.सो.लि, एव्हरशाईन सिटी एव्हेन्य फेस-2, गाव आचोळे, वसई पुर्व, तालुका वसई जिल्हा पालघर, चे मालक आहेत. श्री.मोहम्मद रफीक यासीन यांचे दिनांक 28/102021 रोजी निधन झाले आहे. माझ्य अशील श्री. अझीज रफीक मोमीन यांनी सदर मयत सभासदाचे भाग व हितसंबंध हस्तांतरीत करण्यासार्ठ

या नोटीशीद्वारे संस्थेच्या भांडवलात मालमत्तेत असलेत ाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत मला १०९, पहीर तभासदांचे संस्थेच्या भांडवलातील मालमत्तेतील भाग व

कैलास ह. पाटील दिनांक : २१/०४/२०२३ **वकील उच्च न्यायालय** 

मयत सभासदाचे भाग व हितसंबंध हस्तांतरीत करण्यासंबंधी मयत सभासदाचे वारसदार किंवा अन्य मागणीदार हरकतदार यांच्याकडून हक्क, मागण्या हरकती मागवण्यात येत आहेत. ही नोटीस प्रसिद्ध मजला, शभ लक्ष्मी शॉपिंग सेंटर, वसंत नगरी, वसई पर्व जि.पालघर ४०१२०८ हया पत्त्यावर लेखी पुराव्यास कळवावे अन्यथा तसा कोणचाही कोणत्याही प्रकारचा हक्क हितसंबंध, हिस्सा, अधिकार नाही व असल्यास ते सोडन दिला आहे असे समजण्यात येईल आणि मयत हितसंबंध यांच्या हस्तांतरणाबाबत पुढील कार्यवाही

कैलास ह. पाटील

	(EARLIER KNOW	G FINSERVE LIMITED IN AS "MOONGIPA SECURITIES LIMITED") rgobind Enclave, Vikas Marg, East Delhi -110092 IN
	Tel. No.:011-44457164, E-mail ID:c	ngobind Endaye, Nikas Mary, East Denn - 110092 in Sompliance@sgfinserve.com N:L74899DL1994PLC057941
SG Con Priv	Finserve Limited (Earlier known 'Moong npany') by Mr. Rahul Gupta and Mr. Rohan vate Limited (hereinafter referred to as '	dependent Directors ('IDC') for the Open Offer to the Shareholders of pipa Securities Limited') (hereinafter referred to as 'the Company' 'Targu' Gupta (hereinafter referred to as 'Acquirers') and Sudesh Business Venture PAC') under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of Indi ers) Regulations, 2011 ('SEBI (SAST) Regulations, 2011').
1.	Date	April 20, 2023
2.	Name of the Company	SG Finserve Limited (Earlier known 'Moongipa Securities Limited')
3.	Details of the Offer pertaining to the	Open Offer for acquisition of upto 1,07,30,980 (One Crore Seven Lakh Thirty
	Company	Thousand and Nine Hundred and Eighty) Equity Shares representing 26.00% o
		the Paid-up Equity Share Capital of the Target Company at a price of INR 107/-
		(Indian Rupees One Hundred and Seven Only) per fully paid-up equity share
		payable in cash which includes interest of INR 5.70 (Indian Rupees Five and
_		Seven Zero Paisa Only) at the rate of ten percent (10%) per annum
4.	Name of the Acquirers	Mr.Rahul Gupta     Mr. Rohan Gupta
5.	Name of the PAC	Sudesh Business Ventures Private Limited
6.	Name of the Manager to the Offer	Corporate Professionals Capital Private Limited
7.	Members of the Committee of	● Mr. Anil Kumar Bansal ● Ms. Asha Anil Agarwal ● Mr. Dukhabandhu Rath
_	Independent Directors	Mr. Upendra Hosdurg Sundar Kamath
8.	IDC Member's relationship with the	The IDC members are Independent Directors of the Company.
_	Company	
9.	Trading in the Equity shares/other securities	None of the IDC members hold any shares of the Company and neither have
	of the Company by IDC Members	they traded in any equity shares / other securities of the Company during a period
		of 12 months prior to the date of Public Announcement and since then till date.
10.		The IDC members do not have any relationship with the Acquirers.
11.	Trading in the Equity shares/other securities	Not Applicable

of the Acquirer by IDC Members

13. Summary of reasons for recommendation

Recommendation on the Open offer, as to Based on the review of the Public Announcement and the Detailed Public Statement issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers, IDC believe that the Open Offer is in accordance with SEBI (SAST) Regulations 2011 and to that extent is fair and reasonable The shareholders should independently evaluate the offer and take their own informed decision. They are also advised to seek expert tax opinion before

taking their decision in this regard The Board of Directors of the Target Company, at its meeting held on July 25, 2022 subject to, inter alia, receipt of approval from the shareholders of the Target Company, fulfilment of certain conditions precedent and receipt of other statutory/ regulatory

approval, as may be required, approved the issuance of Preferential Issue of Equity

Shares I and Preferential Issue of Warrants I in the Target Company. As on date of

Draft Letter of Offer, the Acquirers already holds 56.25% shares in the Target

Company and pursuant to the Preferential Issue of Equity Shares I, the

shareholding of Acquirers increased from 56.25% of Pre-Issue Paid-up Share Capital of the Target Company to 73.05% of the Expanded Share Capital of the Target Company, triggering the requirement to make an Open Offer under Regulation 3(2) of SEBI (SAST) Regulations. The equity shares of the Company are listed and traded on the bourses of BSE and

are frequently traded within the meaning of definition of 'frequently traded shares' under clause (j) of Sub-Regulation (1) of Regulation 2 of the SEBI (SAST) Regulations) on BSE.

The Offer Price of INR 107 (Indian Rupees One Hundred and Seven only) which includes interest of INR 5.70 (Indian Rupees Five and Seven Zero Paisa Only) at the rate of ten percent (10%) per annum is justified, in terms of Regulation 8(2) of

the SEBI (SAST) Regulations, being the highest of the following: Particulars 4 6 1

(a)	The highest negotiated price per share of the target company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an open offer	Not Applicable
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirers along with their persons acting in concert during 52 weeks immediately preceding the date of Public Announcement	Not Applicable
(c)	The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirers along with their persons acting in concerts during 26 weeks immediately preceding the date of the Public Announcement	Not Applicable
(d)	The volume-weighted average market price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	INR 94.44/-
(e)	The Equity Shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to the Offer considering valuation parameters including book value, comparable trading multiples, and such other	Not Applicable as the shares of the Target

Pursuant to the receipt of RBI approval on February 13, 2023, and SEBI approval to proceed with the open offer process on April 17, 2023, subject to, the payment of interest to the shareholders for the delay and in compliance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Acquirers agrees to pay the interest at the rate of ten percent (10%) on the Offer Price to the shareholders of the Target Company for from the date following the last date of payment as per the observation letter received from SEBI i.e. November 04, 2022 till the last date of payment to shareholders on the basis of SEBI approval. The calculation of delay period and interest is provided below

Company are

frequently

traded

parameters as are customary for valuation of shares

of such companies

'To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in

Particulars		Details		
Last payout date as per Observation lette	November			
September 19, 2022	04, 2022			
Last Payout date based on the Revised S	Schedule of	May 29, 2023		
Activities of the Offer, determined after re				
nod on April 17, 2023, after receipt of RBI approval				
Delay Period				
Month	Month Davs			

Delay Period				
Month	Days			
Nov-22	30			
Dec-22	31			
Jan-23	31			
Feb-23	28			
Mar-23	31			
April-23	30			
May-23	29			
Delay Days	206			

Dolay Dayo		200		
Total number of delay days	Original Offer Price		Interest	Total
206	INR 10		INR 5.70	INR 106.70
n view of the parameters considered and presented in table above, in the opinion				

of the Acquirers along with PAC and Manager to the Offer, the Offer Price of INR 107 (Indian Rupees One Hundred and Seven only) inclusive of interest per share

is justified in terms of Regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations. None

all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Company under the Takeover Code." For and on hehalf of The Committee of Independent Directors

SG Finserve Limited

Place: New Delhi Date: April 21, 2023

14. Details of Independent Advisors, if any. 15. Any other matter(s) to be highlighted

करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी

दिनांक : २१/०४/२०२३ वकील उच्च न्यायालय

(Earlier known 'Moongipa Securities Limited') **Anil Kumar Bansal** 

Chairperson - Committee of Independent Directors